



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/माघ 28, 1938

No. 111]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 135(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग, कार्यकारी सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क विभाग, कार्यकारी सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क विभाग, कार्यकारी सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 में,—

(क) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:—

“3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।”;

(ख) अनुसूची में,—

(i) स्तंभ (4) में,—

(अ) स्तम्भ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”;

(आ) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35,400-1,12,400 रु.)”;

(ii) स्तंभ (11) में, “प्रोन्नति” शीर्ष के अधीन “वेतन बैंड-1, 5,200-20,200 रूपए + ग्रेड वेतन 2400 रु. में ऐसे कर सहायक” शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (25,500-81,100 रु.) में ऐसे कर सहायक”।

[फा. सं. ए-12018/01/2012-प्रशा. III. ख]

राजपाल सिंह, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में संख्या सा.का.नि. 741 (अ), तारीख 28 सितंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2017.

G.S.R. 135(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Excise and Customs Department, Executive Assistant (Group ‘B’, Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise and Customs Department, Executive Assistant (Group ‘B’, Non-Gazetted posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise and Customs Department, Executive Assistant (Group ‘B’, Non Gazetted posts) Recruitment Rules, 2015, —

(a) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix. – The number of said posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.”;

(b) in the schedule, —

(i) in column (4), —

(A) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:-

“Level in the Pay Matrix”;

(B) for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“Level – 6 in the Pay Matrix (Rs. 35,400-1,12,400)”;

(ii) in column (11), under the heading “Promotion”, for the words, figures and brackets “Tax Assistant in the Pay Band – 1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400/-”, the following words and figures shall be substituted, namely:—

“Tax Assistant in Level – 4 in the Pay Matrix (Rs.25,500-81,100)”.

[F. No. A-12018/01/2012-Ad.III.B]

RAJPAL SINGH, Under Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 741(E), dated the 28th September, 2015.